

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन की रीजनल काउंसलर रोएना सैंटोस को एफ.सी.एम. बोर्ड में दुबारा चुना गया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (7 जून, 2022) – आज अपनी वार्षिक जनरल मीटिंग (Annual General Meeting) में, फेडरेशन ऑफ कॅनेडियन म्युनिसिपल्टीज (एफ.सी.एम.) (Federation of Canadian Municipalities) (FCM) ने ऐलान किया कि ब्रैम्पटन रीजनल काउंसलर रोएना सैंटोस (Rowena Santos) को, 2022 से 2023 तक एक-वर्ष की टर्म के लिए, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए दुबारा चुना गया है।

एफ.सी.एम. (FCM), 1901 से कॅनेडा की म्युनिसिपल सरकार की राष्ट्रीय आवाज़ रही है। इसके मेम्बर्स में पूरे देश की 2,000 से अधिक म्युनिसिपल्टीज शामिल हैं, जो सारे कॅनेडा निवासियों की 90 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। फेडरेशन ऑफ कॅनेडियन म्युनिसिपल्टीज की वार्षिक कान्फ्रेंस और ट्रेड शो (Trade Show), 2 से 5 जून तक हाईब्रिड फॉरमैट में आयोजित किया गया था। इस वर्ष का थीम, *टूगेदर फॉर रिकवरी (Together for Recovery)* है, जिसमें मजबूत और भागीदारी वाली बहाली के लिए संचालकों के तौर पर, म्युनिसिपल्टीज की जरूरी भूमिका को मजबूत बनाया गया।

कान्फ्रेंस में सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को मुख्य मुद्दों पर एफ.सी.एम. की नीति तय करने और निम्नलिखित कार्यों के लिए फेडरल सरकार (Federal Government) से सहयोग और फंडिंग की हिमायत करने का अवसर प्रदान किया गया था:

- बेहतर ट्रांजिट बनाने के लिए प्रतिबद्धता;
- सक्रिय ट्रांस्पॉर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोग्रामों को लागू करने के लिए स्थिर फंडिंग;
- जलवायु संबंधी बदलाव ग्रहण करने और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए निवेश; और,
- आर्थिक विकास और बहाली, नौकरियों तथा वृद्धि में निवेश

सिटी की हिमायत के बारे में अधिक जानकारी, [सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की वेबसाइट \(City of Brampton's website\)](#) पर उपलब्ध है।

हवाले

“पूरे देश के म्युनिसिपल लीडर्स की टीम के साथ, दूसरी टर्म के लिए एफ.सी.एम. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पर काम करना सम्मान की बात है। एफ.सी.एम. में हम, विचारों को अधिक मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में बदलने और लोगों को बेहतर ज़िंदगियां देने के लिए, साझेदारियों को मजबूत बना रहे हैं, और मैं उन महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं की हिमायत करना जारी रखूंगी, जो ब्रैम्पटन के निवासियों के लिए सबसे अधिक जरूरी हैं। एफ.सी.एम. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यह पता लगाना जारी रखेगा कि हमारी बहाली में, हमारे शहरों और निवासियों को आगे बढ़ने के लिए किस चीज़ की जरूरत है और सभी के लिए एक स्थिर, मजबूत और बेहतर भविष्य बनाएगा।”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल की तरफ से, मैं काउंसलर सैन्टोस को एक और वर्ष के लिए, एफ.सी.एम. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पर काम करने के लिए चुने जाने पर बधाई देता हूँ। मुझे यकीन है कि रोएना का संचालन और प्रतिबद्धता, हमारी काउंसिल के द्वारा किए जा रहे कार्य को आगे बढ़ाना जारी रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ब्रैम्पटन और पील रीजन के निवासियों की आवाज सुनी जाती है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

multiculturalmedia@brampton.ca